

## प्रेस नोट दिनांक-17.06.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री रविप्रकाश प्रभारी निरीक्षक थाना बरगढ़ तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 38/2021 धारा 307/504/506 भादवि0 के वाँछित अभियुक्त राम अनुग्रह पुत्र रामबदन शुक्ला निवासी मनका थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 01 अदद SBBL लाइसेंसी गन, 01 अदद जिन्दा कारतूस, 02 अदद खोखा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय हैं कि कल दिनांक-16.06.2021 को थाना बरगढ़ अन्तर्गत ग्राम मनका निवासी चन्द्रिका प्रसाद शुक्ल पुत्र शीतलप्रसाद द्वारा थाना बरगढ़ में सूचना दी गयी कि राम अनुग्रह शुक्ला एवं रामनारायण के मध्य चबूतरे को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें राम अनुग्रह द्वारा अपनी लाइसेंसी SBBL गन से फायर कर दिया जिससे गोली के छर्रे श्रीमती कौशिल्या देवी पत्नी रामनारायण के पैर में लगने से घायल हो गयी। इस सूचना पर थाना बरगढ़ में मु0अ0सं0 38/2021 धारा 307/504/506 भादवि0 बनाम 1. राम अनुग्रह 2. गोरेलाल पुत्रगण रामबदन शुक्ल 3. गुड्डन देवी पत्नी राम अनुग्रह 4. प्रीतू पुत्र रामअनुग्रह निवासीगण मनका थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना बरगढ़ को अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये गये थे। प्रभारी निरीक्षक थाना बरगढ़ तथा उनकी टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमें में वाँछित अभियुक्त राम अनुग्रह पुत्र रामबदन शुक्ला निवासी मनका थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 01 अदद SBBL लाइसेंसी गन, 01 अदद जिन्दा कारतूस, 02 अदद खोखा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

### बरामदगी:-

1. 01 अदद लाइसेंसी SBBL गन
2. 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
3. 02 अदद खोखा कारतूस

### बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना बरगढ़ श्री रविप्रकाश
2. उ0नि0 श्री आलोक सिंह
3. आरक्षी राहुल
4. आरक्षी संगम विश्वकर्मा

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वरि0उ0नि0 श्री कम्बोद सिंह थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 121/2021 धारा 147/148/149/308/304/323/504/506 भादवि0 के वाँछित अभियुक्त (1) हरी कुमार (2) लवकुश पुत्रगण बुक्कीवा (3) शिवदास पुत्र ननकवा (4) ननकवा पुत्र झुरहा निवासीगण ग्राम विलास थाना राजापुर जनपद चित्रकूट (5) फुद्दी उर्फ विजय कुमार पुत्र भइयालाल निवासी शंकरबाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. वरि0उ0नि0 श्री कम्बोद सिंह थाना राजापुर
2. उ0नि0 श्री अर्पित पाण्डेय
3. उ0नि0 श्री सुरेन्द्रनाथ राम
4. उ0नि0 श्री रवि सिंह
5. आरक्षी राहुल पाण्डेय
6. आरक्षी रोशन सिंह
7. आरक्षी ब्रजभान पाल
8. रिक्कूट आरक्षी जितेन्द्र सिंह
9. महिला आरक्षी मोनिका तिवारी

(3). 30प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 17.06.2021 को एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा रैपुरा एवं बोड़ी पोखरी चौराहा में, एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा कस्बा मऊ में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना भरतकूप द्वारा ग्राम भारतपुर के भरतकूप मंदिर और ग्राम घुरेटनपुर मे, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम सेमरा, धुनैहा व कस्बा बरगढ़ में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा भैरोपागा, चुंगी चौराहा, गंगाजी रोड, संतोषी माता मंदिर में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा ग्राम पांडेयपुरवा, चिल्लीराकस, व कस्बा राजापुर में महिलाओं को मिशन शक्ति के तहत जारी पत्रिका को वितरित कर एवं भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया। सभी से अपील की कोई भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें/घूमें कोरोना वायरस से अपने व अपने परिवार को बचाये। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।